



The Listing Department, BSE Limited, Phiroje Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE SCRIP Code: 500112

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor, C / 1, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051

NSE SCRIP Code: SBIN

CC/S&B/AND/2024-25/137

28.05.2024

Madam / Sir,

Disclosure under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015: Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we submit the copy of newspaper advertisement published in Business Standard (English), Business Standard (Hindi) and Aapla Mahanagar (Marathi) on 28.05.2024 pertaining to dispatch of Annual Report for FY 2023-24 and Notice of 69th Annual General Meeting.

Please take the above information on record.

Yours faithfully,

(Aruna N Dak)
DGM (Compliance & Company Secretary)

Encl: A/a

Debate: Have the paddy planting laws fulfilled their purpose?

SANIFFR MIIKHFRIFF New Delhi, 27 May

n a few months, much of North India will be engulfed in a thick blanket of smog due to a combination of factors, one of them being indiscriminate stubble burning. Although stubble burning has come down considerably in the last few years, the problem persists.

Some experts say the limited window between paddy harvest and wheat sowing makes farmers burn their stubble. And one big reason for this limited window is the twin Acts in Punjab and Haryana that prohibit sowing of paddy ahead of a designated

The governments of Punjab and Haryana, to arrest falling groundwater levels, brought out almost identical Acts in 2009, moving paddy sowing towards the onset of the monsoon. Non-compliance with the two Acts the Punjab Preservation of Subsoil Water Act 2009 (PPSWA) and the Haryana Preservation of Subsoil Water Act 2009 (HPSWA) — attracts penalty in the form of destruction of nursery or transplanted crop at the offending farmer's expense, or disconnection of electricity supply, or cash payment, or all of the three.

PPSWA prohibits raising paddy nursery before May 10 and its transplantation not before June 10. The corresponding dates in HPSWA are May 15 and June 15.

Business Standard asks Pratap Singh Birthal, ICAR national professor National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NAIP), and Bharat Sharma, scientist emeritus (water resources). International Water Management Institute (IWMI) whether the Acts have fulfilled their purpose.

The debate becomes relevant in the light of a recent paper by ICAR's NAIP, which says over-extraction of groundwater has continued in spite of the two Acts, leading to a steep decline in its level by more than 0.5 metre a year. The rate of overextraction is three times more in Punjab compared to Haryana.



Pratap Singh Birthal, ICAR national professor, National Institute of Agricultural Economics and **Policy Research**

unabated, leading to a further decline

groundwater development in Punjab

SHARMA: The research by IWMI, and

Punjab in 2009, showed that the total

savings in groundwater withdrawal in

the state was about 2,136 million cubic

metre (7.2 per cent of total Ground

pumping hours' savings. The Punjab

electricity savings of 276 million units

for the agriculture sector in 2009. The

savings were comparable in Haryana.

available. The paddy area in Haryana is

What are the reasons why you think

responsible for the perverse outcome of

the Acts. One of the biggest factors has

the Acts have been effective or

BIRTHAL: Several factors are

However, the exact figures are not

much less than in Punjab.

ineffective?

Water draft), with 31 million total

State Electricity Board reported

empirical evidence by the state of

in its level by more than 4 metres in

both states. The current stage of

is 163 per cent and in Haryana

136 per cent.

How effective do you think the twin been the free or highly subsidised acts of Puniab and Harvana have been? electric power for irrigation in both **BIRTHAL:** Initially for two to three states, even before the enactment of years, they helped arrest the decline in these Acts. Farmers feared lower paddy the groundwater level, but later, despite yield if they were to fully comply with the realignment of paddy sowing these laws being in force, overextraction of groundwater continued towards the onset of the monsoon,

> There is a behavioural response to this. Even though farmers switched over to cultivation of short-duration varieties of paddy, they allocated more area to it, which means more withdrawal of groundwater. Further, the assured procurement of paddy at a government-determined minimum support price (MSP), which acts as an insurance against market and price risks, is also partially responsible for the failure of the Acts. SHARMA: The Acts have been effective due to the strict implementation by the state agriculture and revenue departments. Enforcement of penalty clauses acted as a deterrent. Use of remote sensing confirmed the delayed sowing of paddy around June 10.

which means adoption of the short-

duration paddy varieties.

Rharat Sharma, scientist emeritus

Management Institute

(water resources), International Water

They have been rendered somewhat ineffective due to state-sponsored free or highly subsidised electric power supply, high and assured MSP, and

Strangely enough, farmers realised the

merits and are conforming to the

delayed sowing of paddy.

extensive paddy cultivation in the two states.

Do you think the time has come to revisit these laws?

BIRTHAL: In principle, these legislations could have been quite useful in serving their intended purposes if implemented properly, and if accompanied by rationalisation and re-purposing of input subsidies, especially on electric power. Also, there is a need to rejuvenate the canal irrigation system.

SHARMA: It is now more than 15 years since the Acts were formulated and sufficient lessons have been learnt towards the gains from the Acts, the constraints hindering the realisation of the gains, and other environmental factors. But the Acts still stand as positive state actions and have received wide publicity and interest.

Paddy is one of the most waterconsuming crops. It is also in high demand. How can the crop be grown sustainably without harming nature? BIRTHAL: There are several technological and agronomic options to sustainably grow paddy. Crop diversification is the best option to $improve\, sustain ability\, of\, natural$ resources. However, crop planning based on resource-endowments, that is land and water, is a necessary but not sufficient condition, as there is hardly any crop, except fruits and vegetables, in both states that can generate as much profit as paddy.

SHARMA: The long-term sustainable solution is that at least 10 per cent of the paddy area in the hotspot districts of Punjab and Haryana should transition to other high-value but low-waterconsuming crops of fruits and vegetables, pulses and oilseeds, milk production, and fodder crops. The second best solutions include adoption of Direct Seeded Rice, Alternate Wet and Dry Method of irrigation, use of Laser Land Levelling, Underground Water Pipes for Water Conveyance, Cultivation of short duration rice cultivars, use of non-conventional waters, and Underground Taming of Floods for Irrigation.



Late paddy sowing is blamed as being one of the reasons for stubble burning, as it leaves a very small window before the next wheat crop is sown. In such a scenario, how can the problem of stubble burning be addressed? Has the option of penalising farmers worked?

BIRTHAL: Penalising farmers for burning paddy straw is not a socially and politically desirable option. There are other options. The governments have been providing subsidised machinery for paddy straw management. The Indian Agricultural Research Institute has developed a bio-decomposer technology, which decomposes straw faster. Paddy straw can be used for electricity generation. The governments have also been promoting short-duration varieties of paddy and wheat; the latter is the most

widely grown crop after paddy. SHARMA: This is a serious environmental question and stubble burning is part of the problem, not the root cause of the problem. Stubble management and disposal needs financial and technical resources, which either the farmers do not want to incur or they are not readily available. Burning of paddy straw is not solely due to a shorter window, but because of the ease and low cost of clearing the fields. Small surveys with farmers showed that changing the provisions of the Act will not stop the burning of stubble. Any tinkering with the Acts may be considered in all its pros and cons, and after stakeholder consultations.

greenlime

Pudumjee 3

Views are personal

DYNAMIC ARCHISTRUCTURES LIMITED CIN: L45201WB1996PLC077451

Regd. Office: 409, Swaika Centre, 4A, Pollock Street, Kolkata (W.B.) 700 001, Ph: 033-22342673

Website: www.dynamicarchistructures.com, Email: info@dynamicarchistructures.com

	AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON MARCH 31, 2024						
Sr. No.	Particulars	Quarter ending / Current Year ending	Year to date Figures / Previous Year ending	Corresponding 3 months ended in the previous year			
		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023			
1	Total income from operations	0.79	7.01	0.16			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.16)	5.40	(0.56)			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.16)	5.40	(0.56)			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.20)	4.79	(0.53)			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.20)	4.79	(0.53)			
6	Equity Share Capital	5.01	5.01	5.01			
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic :	(0.39)	9.57	(1.06)			
	2. Diluted :	(0.39)	9.57	(1.06)			
Ma							

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchange website, www.bseindia.com & on the company website, www.dynamicarchistructures.com. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with INDAS Rules.

Danmal Porwa Chairman Cum Managing Director (DIN- 00581351 Date: 27.05.2024

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR RAIGARH CHAMPA RAIL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (to be read with Form G dated 24.08.2021)

OPERATING IN INFRASTRUCTURE INDUSTRY AT CHHATTISGARH
FOR INFORMATION ONLY

(Under sub-regulation (6) of Regulation 36B read with Regulation 36A(1) of the Insolvency and
Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

	RELEVANT PARTICULARS						
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN / LLP No.	Raigarh Champa Rail Infrastructure Private Limited PAN: AADCK6757C CIN: U60300TG2009PTC063665					
2.	2. Address of the registered office 8-1-293/82/A/431/A, Road No. 22, Jubile Hills, Hyderabad – 500033						
3.	URL of website	https://rcrinfra.co.in/					
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Chhattisgarh					
5.	Installed capacity of main products/ services	Rail Infrastructure from Akaltara Railway Statior to KSK Mahanadi Power Plant					
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	INR 58 Crores (as per provisional financia statements for FY 2023-24)					
7.	Number of employees/ workmen	3					

8. Further details including last available Further details can be obtained from Resolution financial statements (with schedules) of two Professional through request on years, lists of creditors are available at URL: E-mail – ip.rcripl@ibcprofessionalsolutions.com 9. Eligibility for resolution applicants under | Eligible Resolution Applicants were identified in

Expression of Interest dated 24.08.202 available at – https://rcrinfra.co.in/ 10. Last date for receipt of expression of interest The last date was on 08.09.2021. No further extensions provided apart from Order of Hon'bl NCLT in IA 523/2022 dt. 05.06.202

section 25(2)(h) of the Code is available accordance with Detailed Invitation for

(consequential changes in Sl. No. 11-14) Initial Provisional List - 13.09.2021 Revised Provisional List - 31.07.2023 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections to Initial - 18.09.2021

13. Date of issue of final list of prospective Initial final list - 28.09.202 resolution applicants Revised final list - 14.08.2023 14. Date of issue of information memorandum, Initial - 18.09.2021 evaluation matrix and request for resolution Revised - 05.08.2023 plans to prospective resolution applicants 15 Last date for submission of resolution 04.06.2024 (As extended from earlier date

Revised - 05.08.2023

16. Process email id to submit Expression of Interest | ip.rcript@ibcprofessionalsolutions.com

For Raigarh Champa Rail Infrastructure Pvt. Ltd. Sd/-

provisional list

Date: 28.05.2024

Resolution Professional Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00267/2017-18/10780 Registered Address: No. 12-13-205, Street No. 2

28.05.2024)(subject to permissible extensions)

OSBI

State Bank of India (Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

Corporate Centre, 14th Floor State Bank Bhavan, Madame Cama Road Nariman Point, Mumbai – 400021 **Website:** https://bank.sbi **Email:** investor.complaints@sbi.co.in **Phone No.:** 022-2274-2403/ 0844/ 1474/ 1431/ 0841/ 0843

KIND ATTENTION: SHAREHOLDERS

Despatch of Annual Report for FY2023- 24 and Notice of 69th Annua eneral Meeting of the Bank to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)

It is hereby informed to the esteemed shareholders of the Bank that the Notice convening the 69th Annual General Meeting (AGM) of the Bank was ublished on 20th May, 2024 in the Gazette of India and in newspape having wide circulation on 21st May, 2024 as per Regulation 21 of the State Bank of India General Regulations, 1955. The 69th Annual General Meeting s scheduled to be held on Wednesday, 19th June, 2024, at 03:00 PM a State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai - 400021 by Video Conferencing (VC) / Other Audio Visua Means (OAVM).

The Annual Report 2023-24 and Notice of 69th AGM has been uploaded or the website of the Bank (https://www.sbi.co.in/web/corporategovernance/annual-report and https://www.sbi.co.in/web/investor relations/agm-notice) respectively. The Notice is also available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (<u>www.nseindia.com</u>) and on the website o National Securities Depository Limited (NSDL) (<u>www.evoting.nsdl.com</u>) The business to be transacted at the 69th AGM through voting by electronic means is:

'To discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Accoun of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2024; the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts; and the Auditor's Repor on the Balance Sheet and Accounts".

The remote e-voting period commences at 10:00 AM IST on 14th June 2024 and ends at 05:00 PM IST on 18th June, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by National Securities Depository Limited (NSDL) for voting thereafter. Once the vote is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently. During the above period, Shareholders of the Bank, holding shares either in physica form or in dematerialized form as on the cut-off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by

Only those Shareholders, who will be present in the AGM through VC OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM. Shareholders who nave voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM However, they will not be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL Frade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapa Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 or by email at evoting@nsdl.com

In terms of relaxations provided by SEBI vide its circular no SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, hard copy of the Annual Report is not required to be sent unless specifically requested by shareholders. Accordingly, the Annual Report 2023-24 of the Bank and the Notice convening 69th Annual General Meeting has been sent by email on 27.05.2024 to those shareholders whose e-mail id is registered with the Bank / RTA.

Further, the Annual Report 2023-24 can also be downloaded from the QF Code given below:



For State Bank of India

Aruna N Dak Dy. General Manager (Compliance & Company Secretary

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED

Regd. Office: Thergaon, Pune - 411033.

Tel.: 020 - 40773333, E-Mail: pune@pudumjee.com

Website: www.pudumjee.com, CIN: L21098PN2015PLC153717



STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ in Lakhs, unless otherwise stated)

Sr.			Quarter Ende	Year Ended		
No.	Particulars	31-Mar- 24	31-Dec- 23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	20,531	20,372	18,271	78,496	75,868
2	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax	5,003	4,289	1,444	13,164	7,967
3	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	3,740	3,186	1,075	9,814	5,940
4	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period and other comprehensive income (after tax)]	3,655	3,315	1,127	10,006	5,903
5	Equity Share Capital	950	950	950	950	950
6	Other equity excluding Revaluation Reserves as per balance sheet				48,280	38,749
7	Earning per Equity share ∶ Basic and Diluted (₹)	3.94	3.36	1.13	10.34	6.26

Date : 27th May 2024

PUDUMJEE

- A Dividend for the year ended 31st March, 2024 at the rate of ₹ 0.60 per Equity share of ₹ 1/- each amounting to ₹ 569.70 lacs is recommended by the Board of Directors in their meeting held on $27^{\rm th}$ May 2024, subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on
- The Statutory Auditors have carried out the audit for the year ended March 31, 2024. Figures for the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are
- the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the respective
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of
- the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The Company is not 'Large Corporate' as on 31st March, 2024 as per criteria provided in SEBI circular dated 26-11-2018
- The figures for previous period have been recast and regrouped wherever necessary to conform to current period's presentations.
- The above is an extract of the detailed format of Financial results for the quarter and year ended 31st March ,2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of these financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.pudumjee.com)

For and on behalf of The Board Of Directors.

Arunkumar M. Jatia **Executive Chairman**

Date: 28.05.2024













<u>माँग सूचना</u> की तिथि, माँग सूचन

की तिथि तक बकाया राशि

22/05/2024

ZTECH Z-TECH (INDIA) LIMITED

Our Company was incorporated as a Private Limited Company with the name of "Z-Tech (India Private Limited" under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated Novembe Finate Limited under the Companies Act, 1930 vide Certificate of incorporation (2582. Further, our Company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on November 20, 2023 and the name of our Company changed from "Z-Tech (India) Private Limited" to "Z-Tech (India) Limited" & Registrar of Companies, Delhi has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated January 11, 2024, bearing CIN: U74899DL1994PLC062582.

Registered Office: Plot 140, Khasra No. 249, Mangla Puri, Gadaipur, South-West Delhi, New Delhi- 110030, India

Tel: 011-35017243; Fax: N.A., Website: www.ztech-india.com / E-mail: cs@ztech-india.com Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Ashish Goel

PROMOTERS: MS. SANGHAMITRA BORGOHAIN AND M/S TERRAMAYA
ENTERPRISES PRIVATE LIMITED THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING UP TO 33,91,200 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF Z-TECH (INDIA) LIMITED ("ZTIL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [=]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. [=] LAKHS ("THE ISSUE"). OUT OF THE ISSUE, 1,70,400 EQUITY SHARES AGGREGATING TO RS. [=] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION" THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 32.20.800 EQUIT SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. [=)/- PER COURT SHARA AGGREGATING TO RS. [=] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSU AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50 % AND 25.17% %. RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASI REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 327 OF THE REL HERRING PROSPECTUS.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS. IN TERMS OF CHAPTER IX THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMIS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 336 OF THE RED HERRING PROSPECTUS. A COPY OF THE RED HERRING PROSPECTUS IS DELIVERED FOR REGISTRATION TO THE REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI AS REQUIRED UNDER SECTION 26 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This Corrigendum should be read with the Red Herring Prospectus dated May 23, 2024 and Pre ssue Advertisement/ Price Band Advertisement dated May 25, 2024 NET ASSET VALUE PER EQUITY SHARE

Particulars	Net Asset Value (NAV) in Rs.
For the period ended on March 31, 2024	24.32
NAV as on March 31, 2023	103.17
NAV as on March 31, 2022	85.17
NAV as on March 31, 2021	84.31
NAV after the Offer- at Cap Price	47.02
NAV after the Offer- at Floor Price	45.43
Issue Price*	[•]

*Issue price will be decided after finalization of basis of allotment, subject to the approval of NSE

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

Narnolia⁶

Maashitla*

REGISTRAR TO THE ISSUE

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED LIMITED 201. 2nd Floor, Marble Arch, 236 Address: 451 Krishna Anra Busines B A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal- 700020 India Tel: +91-8130678743

Email: pankaj passi@narnolia.com Contact Person: Mr. Pankai Pasi Website: www.narnolia.com SEBI registration number: INM000010791 CIN: U51909WB1995PLC072876 scribed to them in the Red Herring Prospectus

Email: ipo@maashitla.com Website: www.maashitla.com Contact Person: Mr. Mukul Agrawal SEBI Registration Number: INB000004370 CIN: U67100DL2010PTC208725

vestors can contact our ompany Secretary and ompliance Officer, the Lead Square, Netaji Subhash Place, lanager or the Registrar to ne Issue, in case of any pre Pitampura, Delhi - 110034, India ssue or post-issue related problems, such as non-eceipt of letters of allotment Telephone: 011-45121795 on-credit of allotted Equit hares in the respective

beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by ectronic mode etc. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning a

For Z-TECH (INDIA) LIMITED On Behalf of the Board of Directors Ms. Sanghamitra Borgoha

Managing Directo

COMPANY SECRETARY

Mr. Ashish Goel Plot 140, Khasra No. 249, Mangla Puri, Gadaipur, South-West Delhi, New

Delhi- 110030, India Tel.: + 011-35017243

www.ztech-india.com

Place: Delhi Date: May 28, 2024

OSBI

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित) कॉर्पोरेट सेन्टर, चौदहवीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मंबर्ड – 400021

वेबसाइट: https://bank.sbi ई-मेल: investor.complaints@sbi.co.in फोन नं: 022-2274-2403/0844/1474/1431/0841/0843

कृपया ध्यान देंः शेयरधारक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक की 69वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) की वार्षिक रिपोर्ट 2023 -24 का प्रेषण और सूचना

बैंक के प्रतिष्ठित शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की 69वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) आयोजित करने की सूचना भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 21 के अनुसार 20 मई, 2024 को भारत के राजपत्र में और 21 मई 2024 को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. 69वीं वार्षिक आम सभा **बुधवार,** 19 जून, 2024 को दोपहर 03.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) द्वारा 'स्टेट बैंक ऑडिटोरियम', स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में आयोजित की जाएगी.

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 और 69वीं एजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट क्रमशः (<u>https://www.sbi.co.in/web/corporate-governance/annual-report</u> व https://www.sbi.co.in/web/investor-relations/agm-notice) पर अपलोड कर दी गई है. यह सूचना बीएसई लिमिटेड (<u>www.bseindia.com</u>) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (<u>www.nseindia.com</u>) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है.

69वीं एजीएम में इलेक्टॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जाने वाला व्यवसाय है: '31 मार्च 2024 तक भारतीय स्टेट बैंक के बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि खाते पर चर्चा करने एवं स्वीकार करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षक के द्वारा अच्छादित अवधि की तुलन पत्र एवं खातों की रिपोर्ट'.

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 14 जुन, 2024 को सबह 10:00 बजे से शुरू होगी और 18 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे पर समाप्त होगी. इसके बाद रिमोट ई-वोर्टिंग के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. शेयरधारक द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी. उपरोक्त अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में प्रदान की गई कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में

या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, रिमोट ई-वोर्टिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट–वोर्टिग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे हालांकि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे.

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को evoting@nsdl.co पर अनुरोध भेज सकते हैं.

सेबी द्वारा अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि शेयरधारकों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जाता है. तदनुसार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 और 69वीं वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना दिनांक 27.05.2024 को ईमेल द्वारा उन शेयरधारकों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/आरटीए में

इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को नीचे दिए गए क्यूआर कोड से भी डाउनलोड किया जा सकता है:



भारतीय स्टेट बैंक हेतु

अरुणा एन दक स्थान : मुंबई उप. महाप्रबंधक (अनुपालन एवं कंपनी सचिव) दिनांक : 28.05.2024



सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड **Cent Bank Home Finance Limited**

इंदौर शाखाः 6/2, रेस कोर्स रोड, इंदौर फोन नंबर 0731 - 2538920

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] (कब्जे की सूचना) अचल संपत्ति के लिए

अद्योहस्ताक्षरकर्ता जो वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन एक्ट-2002 के अधीन जो कि सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, शाखा कार्यालयः इंदौर का प्राधिकृत अधिकारी है, ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन-नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में वर्णित राशि एवं अंकित दिनांक से ब्याज एवं अन्य प्रभार, सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन के भीतर प्रतिदेय करने की मांग की गई है। अद्योलिखित ऋणी रकम का भुगतान करने में असफल रहने पर उधार लेने वाले ऋणी, जमानतदार और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अंतगर्त इस एक्ट के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को इसमें वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधार लेने वाले ऋणी, जमानतदार एवं विशेष रूप से जनसाधारण को इस नोटिस द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के संबंध में व्यवहार न करें। इस संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार **सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, शाखा कार्यालयः इंदौर** के खाते के आगे वर्णित राशि, ब्याज एवं अन्य प्रभार के अधीन होगा। खाते का विवरण निम्न प्रकार से हैः डिमांड नोटिस में डिमांड नोटिस की तिथि

ऋणी/सह-ऋणी का नाम और खाता संख्या श्री दिनेश यादव और श्रीमती अमरावती यादव लोन खाता संख्या 01302070002150

गिरवी रखी संपत्ति का विवरण संपत्ति के सभी भाग और पासर्ल जिसमें शामिल हैं: स्पात क सभा भाग आर पासला जिसमें शामिल हः प्लॉट नंबर 89 का उत्तरी भाग, अमृत पैलेस, ग्राम -निपनिया, इंदौर (एमपी), **क्षेत्रफल -** 500 वर्ग फुट, संपत्ति सीमाबद्ध. उत्तर-प्लॉट संख्या 90-बी. दक्षिण-बताई गयी संपत्ति का हिस्सा, **पूर्व-** सड़क, **पश्चिम -** प्लॉट संख्या 78-बी

राशि (₹) कब्जे की तिथि 19 05 2021 11,18,261/-22.05.2024 (भौतिक रूप से)

स्थानः इंदौर, दिनांकः 27.05.2024

सेन्ट बैंक होम फाडनेंस लिमिटेड, शाखा कार्यालयः इंदौर

ROHA

पंजीकत कार्यालय: जेजेटी हाउस 44/45 रोड नं 2 एमआईडीर्स मुंबई, महाराष्ट्र-400093, भारत **संचार का पता:** ए-45 दसरी मंजिल सिवटेक बिल्डिंग सेक्टर-04

गोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत शाखा बंद/स्थानांतरण करने हेतु सार्वजनिक सूचना

हमलोग रोहा हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन के लि ग्न्यवाद ज्ञापित करते हैं। रोहा हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहकों को यह सूचना दी जार्त है कि इसकी शाखाओं में से एक खसरा नं. 285, पवार गैस गोदाम बारा के निकट, रेवा, मध्य प्रदेश 486001 में स्थित शाखा को स्थानांतरित किया जाएगा एवं 27 अगस्त 2024 से इसके परिचाल कार्य को स्थानांतरित किया जाएगा।

नए पते के लिए, आपसे आरएचएफपीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://rohahousing.com देखने अथवा टोल फ्री नम्बर (यानी) 1800 266 2111 पर डॉयल करने अथवा आगे किसी र्भ सहायता के लिए अपनी निकटवर्ती शाखा से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

हस्ता/-, अधिकृत अधिकारी रोहा हाउसिंग फाइनैंस प्रा. लि (CIN: U65999MH2017PTC293277) विनांकः 28 मई, 2024

हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, मध्यस्थों और जनसामान्य को सूचित करना चाहते हैं कि पहली मंज़िल, कॉम्प्लेक्स के सामने, महू नीमच रोड, पीथमपुर - 454 775, मध्य प्रदेश में स्थित हमारी शाखा 2 से 3 महीने के अंदर बंद हो जाएगी. आपसे इस पर ध्यान देने और रिन्यूअल्स और दावा संबंधी सहायता सहित अपनी पॉलिसी के लिए उपलब्ध सेवाएँ हासिल करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे निकटतम कार्यालय दूसरी मंजिल, कॉमर्स हाउस, 201/212, बिल्डिंग नं. 7, रेस कोर्स रोड, इंदौर - 430 008, मध्य प्रदेश में स्थित पर विज़िट करने या निकटतम कार्यालय के लिए हमारी वेबसाइट <u>www.icicilombard.com</u> पर विज़िट करने या IL take care ऐप डाउनलोड करने का निवेदन किया जाता है.

> आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लि - Just

अधिकत हस्ताक्षरकत

सभी संबंधितों से अनरोध है कि इस पर ध्यान दें।

(i) ICICI CLombard

गोम्बार्ड हाउस, 414, पी. बालू मार्ग, ऑफ वीर सावरकर मार्ग, सिद्धी विनायक के क्यांनिकार्वनीवार्य केंक्र नथा नॉर्थिकन फायनॉशियल कॉर्पोरेशन से संबद्ध है

kotak

परिसंपत्ति का ऑनलाइन ई-नीलामी विक्रय कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी-ख्तॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र पिन कोड-400 051, शाखा कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक, 6वां तल, मेट्रो टॉवर ए. बी. रोड, विजय नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) — 462010 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिनृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपरितय के प्रतिनृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिनृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अयल परिसंपरितयों की बिक्री के लि ई—नीलामी बिक्री सूचना। फुलर्टन इंडिया होन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड **(इसरेड बाद 'एफआईएनएफर्डाएल' के रूप में संदर्भित)** द्वारा कोटक महिद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में किये गये ऋण के असाइनमेंट के परिणानस्वरूप, फुलर्टन इंडिया होन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसर्क बाद 'फ्फ्ऑफ्**यएफर्जाए**ल' के रूप में वंदर्भित के प्रापिश्च कविकारी ने नीये वर्गित अवस्व संपत्ति [जिसे इसके बाद प्रतिमूत परिसंपत्ति कहा जाता है] को 18.12.2019 को प्रतिमृत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रमारित [जिस इसके बाद प्रात्मुत पारसंपात कहा जाता है] को 18.12.2019 को प्रातमूत ऋणवाता क पास बंधककुल / मुमारत किया गया है, का भौतिक अधिष्रामण ले दिया है (एतदावार विशेष रूप में उधारका(क्षी) और भारतर(दर्श) को और सामान्य रूप में जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ने ऋण खाता संख्या 601707510224194 और 601707210224188 के अंतर्गत, श्रीमती हेमलता चरा, श्री अरुण कुमार राय, श्रीमती उमा राय और सैसर्स महिमा सदीजी द्वारा प्राप्त ऋण र 35,38,281/— (रुपये पैतीस लाख उनताविस डकार यो सौ इक्यायन मात्र) की एक राशि, वसूती होता का भविष्य में लागू होनेवात व्याज के साथ, 23—05—2024 के अनुसार बकाया; की वसूती के तिए सर्काएरिस अधिनियम 2002 के प्राच्यानों के अंतर्गत 'जैसी है जहां है', 'जैसी है जो है' और 'वहां जो कुछ भी है' आधार पर प्रतिभत परिसंपित को ई—मीलामी के माध्यम से मीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचने का निर्णय लिया है।

विवरण			विस्तृत—विवरण		
नीलामी की तिथि नीलामी का समय			24.06.2024		
			5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोप.12:00 से अप. 1:00 बजे के बीच		
	आरक्षित मूल्य		रु. 9,50,000 / – (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)		
	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) केवाईसी के साथ ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि		रु. 95,000 / — (रुपये पिचानबे हजार मात्र)		
			21.06.2024 की साथ 5:00 बज (आइएसटा) तक		
का विवरण इस प्र		तहसील इस प्रव	ड भूमि सर्वे क्रमांक 1275 के मकान के हिस्से के समस्त वह भाग तथा अंश, जो मोहत्ला दुर्गापुरा नागदा जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 468335 में स्थित है. कुल क्षेत्राधिमापन 92.89 वर्ग मीटर जो कर परिसीमित हैं : पूर्व– सड्क, पश्चिम– गली, उत्तर– श्रीमती साजन बाई का घर, श्री राज्, पुत्र लालराम का प्लॉट।		

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत प्रतिभृत परिसंपत्ति को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उधारकर्ता का ध्यान प्रतिनृत्व प्रतिनृत्व परिस्वार्थित को ऋणमूक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, ओवीनेयम को बारा 13 की उप-धार व के कावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप में उधारकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्वसाधारण जानता को कृपया ध्यान देना होगा कि यदि यहां इस में उबत तालिका में निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विकल हो जाती है तो प्रतिनृत्व ऋणयाता निजी संधि के मध्यम से बिकी के द्वारा प्रतिनृत्व हित प्रविति कर सकता है। बिकी के अंतर्गत रखी गयी परिस्वारियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/ आवश्यकता की रिश्वति में, बोलीयाता जो है ये अस्तित सोलंकी (+01 7302111808) और श्री पंकण दें यदा (+01 8448204816) से संपर्ध कर सकते हैं। बोलीयाता स्पष्टीकरणों के लिए बैंक के आईवीआर नंबर (+01-916219781) से भी संपर्ध कर सकते हैं। बिकी के विस्तृत नियमों और सर्तों के लिए, बैंक की पेबसाइट यानी www.kotak.com तथा / अथवा http://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.in/ पर उपलब्ध लिंक स्वार्थ के स्वर्ध कर सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। कि स्वर्ध कर सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के स्वर्ध के स्वर्ध कर सकते हैं। के सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के स्वर्ध कर सकते हैं। के सकते हैं। के सकते हैं। के स्वर्ध

IndiaShelter इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Home Loans पंजीकृत कार्यालय : पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुप्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर: 226-227, पहली मंजिल, पीयू-4, स्कीम नंबर 54, ब्रज लक्ष्मी, लॅंडमार्क - होटल श्योर स्टे के पीछे, रसोमा क्वाचर, इंदौर-450021, मध्य प्रदेश, श्री राम कॉम्प्लेक्स, 123-ए, ग्राउंड फ्लोर, कलानी बाग.ए.बी. रोड, देवास-455001, पवैया कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, विजया बैंक के ऊपर, गुना, म.प्र.-473001, प्लॉट नंबर 40, ग्राउंड फ्लोर, गणपति प्लाजा, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474011,68/2 फ्रीगंज खलाम (म.प्र.)-457001, मकान नंबर -6, ग्राउंड फ्लोर, अस्हित बिहार कॉलोनी, फेज-1, वार्ड क्रमांक-4, विदिशा-म.प्र.-464001

अचल सम्पत्ति हेतु सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन (प्रतिभृति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम जबारन, जबारनाज्य ना परापच जाएराचा तथा अरपान १ आराजूमा) हात जायानचन, 2002 क नाच्या क्या र युजानाचा क तथा २४ आराजूमा हात अरपान । गर्चन, 2002 का नाच्य 3 के साथ पटित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में वर्तमान में <mark>ईषिडया शेल्टर फाइनेंस एक कर्मपरिशन लिमिटड</mark> का अधिकृत प्रथिकारी होने के नाते कर्जदार तथा सम्पत्ति/आश्यस्ति के स्थामी से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहरताबारी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) की तहर उसे शक्तियां ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहर उसे शक्तियों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहर उसे शक्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तिरयों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तिरयों के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए **इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

प्रभारित∕बंधक सम्पत्ति का विवरण

(निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)

श्री/श्रीमती शेलेंद्र निगम वी और ग्राम बड़वानी नगर पालिका बड़वानी तहसील बड़वानी एवं जिला बड़वानी (म.प्र.) में मांग सूचना: 14/09/2023

(सम्पत्ति के स्वामी)

तथा ऋण खाता संख्या

1.	मकान नं. 25 वार्ड नं. 15 लक्ष्मी टाकीज के सामने दीवार गली में गुरुवा मोहल्लाता तस्वानल 451551 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या H445AHL0	बड़वानी नगर पालिका बड़वानी में 'न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरवानल' में स्थित रू. 798972.33/- (सात लाख निगम क्षेत्र में स्थित संपत्ति का समस्त भाग भूमि और भवन का समस्त भाग - स्रीय गृह संपत्ति, पीएव नंबर 04 मकान नंबर एल.आई.जी. 211 आवासीय भूमि, पैसे मात्र) 14/09/2023 तक देव है, आकार (क्षेत्रफल) - कुल 54 वर्ग मीटर, उपपंजीयक बरवानी पंजीकरण कार्यालय नी के अधिकार क्षेत्र में स्थित, सीमाः-पूर्व प्लॉट नंबर 210 पश्चिमः- प्लॉट नंबर 212 - आम सड़क दक्षिणः - प्लॉट नंबर 218	(सांकेतिव कब्जा)
2.	श्री/श्रीमती कस्तूरी पचार श्री/श्रीमती बंशी लाल राजेंद्र पंचार पता:- मकान नं. ए-78, राम नगर पास 485881 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या: HL2000002932 और LA45TLLONS00005009142	र्व श्री/श्रीमती वार्ड नं.8, प्लॉट नं. ए/78 यूजी 1, विश्व वैंक जसवाडी रोड मांग सूचना:-17/11/2023 शिव मंदिर के छोटा शिव मंदिर खंडवा450001 का समस्त भाग, सीमा:- रू. 3,73,865/- (रुपये तीन लाख तिहत्तर पूर्व:- सड़क, पश्चिम:ख़ुला, उत्तर उत्तर ए-77, दक्षिण:- व्यक्षिण ए-79 दक्षिण ए-79	22/05/20 (सांकेतिव कब्जा)
3.	श्री/श्रीमती निर्मला श्याम लाल, श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती हर्षवर्द्धन मुकाती पता:- कंचनवाग कॉलोनी, सनावद खरगोन ि मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या: LA45CLLONS0000	451111 खंडवा मध्य प्रदेश, सीमाः-पूर्वः श्री रुप्ये 15,65,474/ (पंद्रह लाख पेंसठ हजार तला खरगोन 451111 ब्लिटारी सेजाया का मकान, पश्चिम: सालेर की भूमि, चार सी चीहतर रुपये मात्र) 11/1/2/2023 तक टेव हैं साथ ही 12/1/2/2023 सेव	22/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
4.	श्री/श्रीमती चंदा बाई कटारे, श्री/श्रीमती विजय कुमार कटारे एवं श्री/श्रीमती कलीराम कटारे पता:- मकान एन 169 बाई नंबर १ रेलवे स्टेशन रोड छनेरा नया हरसूद 450116 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या: LA45CLLONS000005053462	पीएच नंबर पुराना 45 और नए 48, खसरा नंबर 102/1, सिंदयापानी, मेन रोह, वार्ड नं. 09, ग्राम छनेरा, तहसील हरसुद, जिला खंडवा 450116 मध्य प्रदेश का समस्त भाग, सीमा:-पूर्व:-सतीश जैन का घर, पश्चिमः शेष भाग, उत्तर:-जगदीश दशोरे की भूमि, दक्षिण-रोड	22/05/20 (सांकेतिव कब्जा
5.	LASS CLLUNSONONOSSS3402 श्री/श्रीमती सारिका बाई बिड्ला एवं श्री/श्रीमती जवराम गुलावचंद पताः – 301 बावडी सीजीक ढाका एलजीडब्ल्युओ खरगोन 451111 मध्य प्रदेश ऋण खाता सं : HL45CHLONS000005062194	पोएच नं. –138 सर्वे नंबर-182, हाउस नंबर-128, पंज 1-105, खंडवा मांग सूचना: -06/02/2024 मध्य प्रदेश का समस्त भाग, माप क्षेत्र-795.5 वर्ग फुन्ट, सीमा:-पूर्व-गली, रु. 15.01,479/- (पंद्रह लाख एक हजार चार पश्चिम: सेक्कराम यादव का घर, उत्तरः- गली(सीसी रोड), दक्षिण:-गोपी चंद पटेल का झूले।	22/05/20 (सांकेतिव कब्जा)
ь.	श्री/श्रीमती वुवा परिहार एवं श्री/श्रीमती लाल सिंह पता:- मकान नंबर 140 वार्ड नंबर 14 पटवारी मोहल्ला शाजापुर 465001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या: HL45HLLONS000005048869	संपत्ति के हिस्से का समस्त भाग, प्लॉट का हिस्सा, भूमि सर्वे नंबर 493 का हिस्सा, ग्राम शाजापुर खतरी मोहल्ला मुख्य सड़क से अंदर वार्ड नंबर 21, तहसील और जिला आगर (मप्र) – कुल क्षेत्रफल – 450 वर्ग फीट, 41.82 वर्गमीटर, सीमा:-पूर्व-सामान्य रास्ता, पश्चिम-विक्रेता का घर, उत्तर-विक्रेता की भूमि, दक्षिण-विक्रेता की भूमि	21/05/20 (सांकेतिव कब्जा)
7.	श्री/श्रीमती माधुरी और श्री/श्रीमती विकासनगर, पता:-ग्राम पाडल्या, इंदौर- 453220 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या:- HL45AHLONS000005060057	74 ग्राम पाइल्यापाइल्या का समस्त भाग, सीमाः- पूर्वः खाली जगह एवं रोड, पश्चिमः शुभाष नागर जी का घर, उत्तरः खाली जगह और मुख्य सड़क। दक्षिणः खाली जगह आकाश जी देव, साथ डी 20/11/2023 से लागू अतिरिक्त ब्याज	21/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
1	श्री/श्रीमती मंजू बाई और श्री/श्रीमती राहुल राठीड़ पता:-31 ग्राम पाडलिया कचरिया उज्जैन 456441 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या:- HL45AHLONS000005060057	74 ग्राम पदल्यापाड्ल्या का समस्त भाग, सीमाः-पूर्वः खाली जगह और मांग सूचनाः-137/12/2023 सड़क, पश्चिमः शुभाष नागर जी का घर, उत्तरः खाली जगह और मुख्य सड़क, दक्षिणः खाली जगह आकाश जी सहक, दक्षिणः खाली जगह आकाश जी साथ	21/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
	श्री/श्रीमती प्रकाश बाई और श्री/श्रीमती लाखन सिंह पता:-ग्राम रलायती.घटिया,उज्जैन-456550 मध्य प्रदेश (ऋण खाता संख्या: HL45CHLONS000005064639)	पीएच नं. 51, क्र.सं. 810/2/1, ग्राम और जीपी घाटिया जिला उज्जैन का समस्त भाग, सीमा: -पूर्व-रोड, पश्चिम-रोड, उत्तर-स्वयं भूखंड, दक्षिण- विशाल शर्मा का प्लॉट जिलारिक स्वात सी सात सी आह आहासी रूपये मात्र) 10/01/2024 तक देय साथ ही 11/01/2024 से लागू अतिरिक्त ब्याज	21/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
	श्री/श्रीमती नीतृ चौहान एवं श्री/श्रीमती गणेश चौहान पता-दुर्गा चोपाती ग्राम खेडाखजुरिया महित्पुर उज्जैन म.प्र. 456443 ऋण खाता सं.: HL45CHLONS000005064491	ग्राम नीमनवासा नई आबादी, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित भूमि सर्वेक्षण मांग सूचना:-06/02/2024 संख्या 377 पर एक भूखेंड का समस्त भाग, कुल क्षेत्रफल – 83.61 वर्ग मीटर, सीमा:- पूर्व - रास्ता, पश्चिम-रास्ता, उत्तर दिशा – ईश्यरलाल लुहार का घर, दक्षिण– नारायण जी घर	21/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
	श्री/श्रीमती अमृता चौधरी एवं श्री/श्रीमती योगेन्द्र चौधरी पता-मकान नं. 136, डालडा फैक्ट्री, मैक्सी रोड के पास, उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 ऋण खाता संख्याः CHL100001359)	मकान नंबर 424 ईंडब्ल्यूएस का समस्त भाग, संदीयनी नगर उज्जैन, मांग सूचना:-06/03/2024 उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित, कुल क्षेत्रफल-36.00 वर्ग मेत्र, सीमा:-पूर्व- प्रहक, पश्चिम-सड़क नं. 443 ईंडब्ल्यूएस, उत्तर- मकान नं. 423 हजार तीन सी वयालीस रुपये) 06/03/2024 इंडब्ल्यूएस, दक्षिण- मकान नंबर 425 ईंडब्ल्यूएस अतिरिक्त क्याज	21/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
2	श्रीश्रीमती संपत बाई एवं श्रीश्रीमती संपत बाई एता-ग्राम पंचचायत 1 लैंडमार्क रामदेव बाबा मंदिर खाचरीद खाचरीद जिला उज्जैन 456224 मध्य प्रदेश खन खाता संपत्ति HL45CHLONS000005042897 तथा HL45CHLONS00000506248)	संपत्ति का समस्त भाग सर्वेश्वण संख्या 1705/2 के भूखंड पर स्थित, मांग सूचना: -06/02/2024 पटवारी हल्का नंबर 58 स्थित ग्राम पविचयसी तहसीत खाचरीद जिला रु. 19,29,172/- (केंचल उन्नीस लाख उ॰/जैन मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रभत 2860 वर्ग फीट, सीमा:- पूर्व-तोलाराम उनतीस इजार एक सी बहतर रुपये) का प्लॉट, पश्चिम-सङ्क एवं हटेसिंह जी का प्लॉट, उत्तर-भरत का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट निर्भयरामजी का	22/05/202 (सांकेतिक कब्जा)
13	श्री/श्रीमती दीपिका पणवार एवं श्री/श्रीमती पंक्रज पणवार पताः प्रमुप्त 227 कृषि मंडी गेंड नई आवारी वार्ड ने. 24 प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ 312605 राजस्थान ऋण खाता संख्याः HL45CHLONS000005013378	प्लॉट नं. 83 पर स्थित की आवासीय सम्पत्ति का समस्त भाग, राजेंद्र नगर मांग सूचना:-13/12/2023 बांसवाड़ा रोड़ प्रतापगढ तहसील प्रतापगढ जिला प्रतापगढ में स्थित, कुल रु. 11,36,828/- (ग्यारह लाख छत्तीस हजार क्षेत्रफल 870 वर्ग फुट सीमाएँ: -पूर्व: प्लॉट नं. 83 का शेष भाग, पश्चिम: अगट हजार आठ सी अद्वाईस रुपये मात्र) प्लॉट नं. 82, उत्तर: प्लॉट नं. 85, दक्षिण: कॉलोनी रोड 20 फीट चौड़ा। ता/1/2/2023 तक देय, साथ ही 12/12/2023 से लागू अतिरिक्त व्याज	22/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
14	श्री/श्रीमती रामप्यारी, श्री/श्रीमती अनिल पाटीदार एवं श्री/श्रीमती वरतीचंद पाटीदार पता:- चाई नंबर 17 मकान नंबर 454, तहसील दलीदा, अकोधादा मंदसीर जिला मंदसीर मध्य प्रदेश 458667 ऋण खाता संख्याः LA45CLONS000005041684	सम्पत्ति मकान सर्वे नंबर 1004/2/2 का समस्त भाग, रकवा 0,047 हंक्टेयर, ग्राम आकोदड़ा, तहसील दलीदा, जिला मंदसीर मध्य प्रदेश रु. 15,90,358/- (पंद्रह लाख नब्बे हजार तीन 458667 में रिथत, कुल क्षेत्रफल 5059 वर्ष फुट। सीमाएँ: - पूर्व: श्यामलाल पार्टीदार का घर, पश्चिम: सड़क, उत्तर: साथ ही 12/12/2023 से लागू अतिरिक्त ब्याज रामनारायण पार्टीदार का घर, दक्षिण: सुरेश पार्टीदार का घर।	22/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
15	श्री/श्रीमती गीता बाई स्ट्रीट श्री/श्रीमती यश वर्मा पता:-फ्लेट नं. 407 आलोक फ्तावर मार्ग राक एम 6 श्री कृष्णा पैराडाइज राक इंदौर 453331 मध्य प्रदेश ऋण खात मंख्या: LA4SVLLONS000005076538 तथा HL45AHLONS000005070843)	फ्लैंट नं. 407 का समस्त भाग, बिल्डिंग वृन्दावन धाम की चौथी मंजिल पर, प्लॉट नं. एम–6, श्री कृष्णा पैराडाइज, ग्राम राक (अंदर) तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश कुल सुपर निर्मित क्षेत्र 704 वर्ग फीट, सीमाः – पुर्व-प्लॉट संख्या 408, पश्चिम– अन्य प्लॉट, उत्तर– कॉलोनी की सड़क दक्षिण-फ्लॅट नं. 406	23/05/202 (सांकेतिक कब्जा)
16	श्री/श्रीमती सीमा पॉल एंथोनी एवं श्री/श्रीमती एरिक स्वामी पता:- 31/17 क्वार्टर नंबर 11 सीआरपी लाइन इंदौर452001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्याः HL45CHLONS000005075330)	फ़्लैंट नं. जी-कका समस्त भाग ओप्पल हाइट्स-एच के भूतल पर, प्लॉट मांग सूचना: -06/03/2024 नं. 373, सिंगापुर टाउनशिप, ग्राम तलावली चांदा, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश कुल कोश्रम्कल- 925.00 वर्ग फीट, सीमा: -पूर्व-प्लॉट संख्या 374, पश्चिम-प्लॉट संख्या 372,	23/05/20: (सांकेतिव कब्जा)
7	श्री/श्रीमती अनिता एवं श्री/श्रीमती गगनदीप खुराना पता:- 2358-ई, सुधमा नगर, इंदौर 452001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संस्था: HL45CHLONS000005067360 श्री/श्रीमती आशा खरे सेंट श्री/श्रीमती जितेंद्र	षर/प्लॉट नं, 144 का समस्त भाग, श्री कृष्णा विहार कॉलोनी, तहसील एवं <mark>मांग सूचना:-०6/02/0224</mark> जिला इंदौर, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल:-800 वर्ग फीट, सीमा:-पूर्व-अन्य घर, पश्चिम-सङ्क, उत्तर-प्लॉट नं. 143, दक्षिण- मकान नं. 145, ०6/02/2024 तक वकाया, 07/02/2024 से लागू अतिरिक्त ख्याज संपत्ति फलैट नंबर 114 के हिस्से का समस्त भाग, सिद्धि अपार्टमेंट की मांग सुवना:- 14/09/2023	23/05/202 (सांकेतिक कब्जा)
18	दुबे ऐडः-12 जयराज नगर मेन रोड नंदबाग नगर तिगरिया बादशाह452001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्याः HL45CHLONS00005044306)	सपात पलट नवर 114 क हिस्स का समस्त भाग, साद्ध आपाटमट का पण्डली मंजिल पर, प्लॉट नंबर 09 पर स्थित, श्री राम कमल रेजीईसी, है. 1021274.4/- (रुपए दस लाख इक्कीस ग्राम नालनोद तहसील और जिला इंदौर म.प्र.कुल क्षेत्रफल; 473 वर्ग हजार दो सौ चीहतर और चालीस पैसे) फीट, सीमाः – पूर्व-रोड, पश्चिम-ओपन डक्ट, उत्तर-फ्लैट नंबर-113, दीशण-रोड दिक्षण-रोड विकास भीम क्र.सं. 98/4/1/1/1 पर मकान का समस्त भाग, भूमि बही नं. मांग सुचना:-06/02/2024	22/05/202 (सांकेतिक कब्जा)
19	त्राश्रामता आम कुचर बाइ, आश्रामता चारा तरह त्या श्रीश्रीमती विजय चौहान पताः-चार्ड तं । पोसट खेरिया जागीर, बस स्टैंड के पास खेरिर थाना तहसील सोनकच्छ देवास 455001 मध्य ऋण खाता संख्याः HL45CHLONS000005052076)	5, ग्राम एल-आई-66872 पीएच नंबर 13, ग्राम खेरियाजागीर तहसील 	(सांकेतिक कब्जा)
20	श्री/श्रीमती मीना प्रजापति और श्री/श्रीमती किशोः पता:- मकान नं. 84, सिलवर पार्क, देवास 455001 मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्याः HL45ULONS000005011591	कुमार प्लॉट नंबर 84 (उत्तर पार्क) वाली संपत्ति का समस्त भाग, सिल्वर मांग सूचना:-06/02/2024 पार्क कॉलोनी ग्राम शंकर गढ़, देवास जिला 455001 मध्य प्रदेश रु. 5,58,158/- (केवल पांच लाख अद्वावन सीमा:-पूर्व- सड़क, पश्चिम- दूसरे का मकान, उत्तर- महेंद्र सिंह टाकुर का निमाणांधीन मकान, दक्षिण- रूपेश जी का मकान है और 07/02/2024 से लागू अतिरिक्त ख्याज	22/05/202 (सांकेतिक कब्जा)

हिन्दूजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: 167–169, द्धितीय तल, लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन, साईपेठ, चेन्नई– 600015 रीजनल ब्रांच ऑफिस: 101–बी, प्रथम तल एनआर के विजिनेस पार्क विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)452010

सांकेतिक नीलामी बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूतिकरण के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखात सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया जाए। और उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय संपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, हम आपको नोट्सि देते हैं कि यदि आप 30 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं तो नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति अधोहस्ताक्षरी द्वारा बेची जाएगी। यह नोटिस, आपके द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार संपूर्ण बकाया ऋण तीस दिन की समाप्ति के बाद, आपको कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा और नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति तदनुसार बेची जाएगी। साथ ही नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खारीद के लिए सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं , जिन्हें बेचा जाना है। ''जैसा है जहां है आधार'' , ''जैसा है जो है आधार'' और ''जो कुछ है वही आधार'' के रूप में , जिनका

ऋण खाता संख्या और ऋणी का नाम सहऋणी—/गारंटर	माँग सूचना धारा 13(2) दिनांक एवं राशि बोली वृद्धि राशि	अचल एंव सुरक्षित संपति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	आरक्षित मूल्य (रू. में) बयाना राशि (ईएमडी)	अचल संपत्ति निरीक्षरण तिथि बयाना राशि अंतिम तिथि नीलामी की तिथि एवं समय
Loan Account No. MP/BPL/BOPL/A000000298 1. विकाश सिंह (उधारकर्ता)	25.11.2023 Rs 34,15,514 (Rupess Thirty Four	फ्लैट नंबर टी-२, तीसरी मंजिल का क्षेत्रफल १२७० वर्ग फीट (११८.०२ वर्ग मीटर) रुचि होम्स प्लॉट नंबर ७५ पर स्थित है, जो भूमि खसरा नंबर १२/१/३, ३९४, १२/२/२, १२/१ का एक हिस्सा है। /२, स्थित त्रिलोचन नगर (त्रिलंगा	11/03/2024	Rs. 38,40,000/- (Rupees Thirty Eight Lakhs Forty Thousand Only)	24.06.2024 between 11 AM to 5 PM
२. प्राजक्ता वैशाली (सह उधारकर्ता)	Hundred Fourteen) Rs. 10,000/-	सहकारी हाउसिंग सोसायटी) ग्राम बावड़िया कला वार्ड क्रमांक 51 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा घिरा - पूर्व द्वारा: - सड़क, पश्चिम द्वारा: - प्लॉट नंबर 76, उत्तर: - फ्लैट नंबर टी-01, दक्षिण: - सड़क		Rs. 3,84,000/- (Rupees Three Lakhs Eighty Four Thousand Only)	26.06.2024 between 10 AM to 4PM. 29.06.2024 between 11 AM to 1PM.
ा. रानवाबू जाहरवार (उदारकता)	27.12.2023 Rs 14,86,382 (Rupees Fourteen Lacs Eighty Six Thousand Three	डायवर्टेंड आवासीय भूखंड खसरा नंबर ९४२/१/१ और ९४२/१/२ का हिस्सा, और ९४३/१/२ बजरंग कॉलोनी सीहोर वार्ड नंबर ३ नगर पालिका सीहोर तहसील जिला सीहोर में स्थित है, क्षेत्रफल १००० वर्ग फीट	15/03/2024	Rs. 25,75,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs Seventy Five Thousand Only)	24.06.2024 between 11 AM to 5 PM 26.06.2024
२. लक्ष्मी कुशवाह (सह-उधारकर्ता)	Hundred Eighty Two) Rs. 10,000/-	सीमा - उत्तर:- प्लॉट नंबर ४, दक्षिण:- प्लॉट नंबर ६, पूर्व:- कॉलोनी सीमा, पश्चिम:- २० फीट निस्तारी रोड		Rs. 2,57,500/- (Rupees Two Lakhs Fifty Seven Thousand Only)	between 10 AM to 4PM. 29.06.2024 between 11 AM to 1PM.

1. अचल संपत्ति क निरीक्षण की तिथि 24.06.2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच है। 2. ईएमडी और कंवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली / प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 26.06.2024 सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच है। शाखा कार्यालय में रू हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–प्लाट नंबर 240, जीआरपी कालोनी, होट्ल अलंकार पैलेस के पास, एम.पी नगर जोन ॥, भोपाल–462011, जो निविदाएं भरी नहीं जाएंगी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अवैध निविदाएं मानी जाएंगी और तदनुसार खारिज कर दी जाएंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 3. संपत्ति के लिए बोली / प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 29.06.2024 पूर्वाह्न 11 बजे उपरोक्त शाखा कार्यालय के पते पर है। निविदा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी। 4. नोटिस में बकाया राशि और आकरिमक खर्चा, लागतों आदि पर ऋण समझौते के अनसार, लाग होने तक अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। 5. इसके द्वारा उधारकर्ता / ओं और सह – उधारकर्ता /ओं को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और बिक्री के नियम और शर्ते के अनसार ऊपर वर्णित अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों / क्रेताओं को ला सकते हैं। 6. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्त निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 7. अचल संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। उल्लिखित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 8. एचएचएफएल (हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ^र'जो है वह है' के आधार पर की जाएगी। 9. कुल बकाया ऋण राशि ऋण फोजदारी राशि नहीं हैद्य अन्य सभी शुल्क (यदि कोई हो) की गणना ऋण बंद करने के समय की जाएगी। 10. **डिमांड खूपर''हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में** भोपाल में देय होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, उपर्युक्त कार्यालय पते परप्राधिकृत अधिकारी VAIBHAV SHRIVASTAVA - 9755225338, RAJ ESH CHAKOTIYA - 8435571111, SAMEER SINGH : -9584290575, ASHISH SINGH - 9981998190

स्थान– भोपाल, दिनांक– 28.05.2024

